For FUNNY SOFTWARE LIMITED Date: 05.09.2020 WHOLE TIME DIRECTOR

at www.funnysoftwarelimited.com and on Stock

Exchange Website at www.bseindia.com

Place: Delhi RAM NARESH

#### SATKAR FINLEASE LIMITED Regd. Office: 829, Laxmideep Building, 8th Floor, District Centre, Next To V3S Mall, Laxmi Nagar, Delhi 110092 CIN: L65910DL1996PLC075394 Notice is hereby given that Board Meeting of the

Notice is hereby given that the Meeting of the Company will be held on Monday 14th September Board of Directors will be held on Monday, 14th 2020 at the Registered Office of the company. September, 2020 at the Registered Office of the pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI company to consider and approve the Unaudited Listing Obligations and Disclosures Requirement) Financial Results for the guarter ended 30th June, Regulations, 2015 to consider and approve the 2020 Pursuant to Regulation 47(1) (a) of the Unaudited Financial Results for the quarter ended | SEBI (Listing Obligations and Disclosures | Requirement) Regulations, 2015 A copy of the said notice shall also be available at A copy of the said notice shall also be available at

the company's website www.satkarfinlease.in and the company's website www.hindispat.com and on stock Exchange website www.msei.in on stock Exchange website www.bseindia.com For Satkar Finlease Limited

Amount O/s

interest w.e.f

FOR QUOD ISPAT LIMITED NOTICE (Formerly known as Hind Ispat Ltd) VINAYAPRAKASH

Roop Singh Place: New Delhi Whole Time Director | Date: 05.09.2020 Date: 05-09-2020 punjab national bank 😉 पंजाब नैशनल बैंक

# ..भरोसे का प्रतीक ! CIRCLE SASTRA CENTRE, PALIKA BAZAR, PANIPAT

POSSESSION NOTICE (For Immoveable Property)

Whereas the authorized officer of PUNJAB NATIONAL BANK under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice on the dates mentioned against each account and stated herein after

Date of

demand

Date of

possession

calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule, on the dates mentioned against each account. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in

respect of time available to redeem the secured assets The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for

the amount and interest thereon, given below:

Name of the Account / Borrower & Guranto	r
1. M/S Shri Ran Marble & Tiles (Proprietor-Mrs Poonam W/O Mr Satish Kumar) Opp.GVM Girls College, Murtha Road, Sonepa	

SNEHA BANSAL

. Sudhir Bajaj, 2. Narender

Kanta, 4. Mrs Shaily Bajaj, 5.

M/s Interlinks Overseas Pvt.

Ltd. Through its Director.

I. UMESH KOHLI, 2.

ANJU BALA KOHLI

(THROUGH ITS LEGAL

20039115 & 8899611

HEIRS), & 4.GEETA KOHLI.

5033677

5536581

Place: DELHI-NCR

financialen epan.in

Date- 06.09.2020

mortgaged notice EQM of Residential cum 06.02.2020 0.09.2020 Rs. 2239721.70 Commercial Property msg. 150 Sq Yards situated opposite GVM (Rupees Twenty Girls College, Murthal Road, Sonepat-131001, standing in the Two Lakh Thirty name of Mrs. Poonam W/O Mr. Satish Kumar vide sale deed no Nine Thousand 2470 dated 25.05.2005 for 50 Sq Yards & sale deed no 18116 Seven Hundred dated 30.03.2006 for 100 sq yards both Regd with JSR Sonepat, Twenty One and Bounded as under: East: remaining part of Property of Mrs Paise Seventy only) Poonam; West: Property of Kamrudin; North: Property of as on 31.01.2020 Poonam Devi; South: Murthal Road (Haryana)-131001 2. Smt. Poonam W/O

Description of

01.02.2020 until payment in full Satish Kumar, (Proprietor- M/S Shri Ram Marble & Tiles), Opp. GVM Girls College, Murthal Road, Sonepat (Haryana)-131001 Sh.Satish Kumar S/O Sh Mange Ram, (Guarantor) Opp. GVM Girls College, Murthal Road, Sonepat (Haryana)-131001

Dated: 05.09.2020 Place: Panipat Authorized Officer, Punjab National Bank

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD. SALE NOTICE FOR SALE OF Branch Address: Tata Capital Financial Services Ltd. 7th Floor, TATA

#### IMMOVABLE PROPERTIES Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055 (Under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below mentioned Borrowers/ Co-Borrowers that the below described immovable properties (secured assets) mortgaged to Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor), the Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor), will be sold on 29th DAY OF SEPTEMBER 2020 "As is where is basis' & "As is what is and whatever there is & without recourse basis". The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are mentioned

Whereas the sale of secured assets is to be made to recover the secured debt. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured assets shall be sold by E- Auction at 2 P.M. on the said 29th DAY OF SEPTEMBER 2020 by Tata Capital Financial Services Ltd. having its branch office at 7th Floor, Videocon Tower, Block E-1, Jhandewalan Extn New Delhi-110055. The sealed E-Auction for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD till 5 P.M. on the said 28th DAY OF SEPTEMBER 2020. The sale of the property will be in "as is where is condition"

S. No.	LOAN ACCOUNTS  Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)		Type of Possession Symbolic/ Physical		Reserve Price	
			Outstanding Dues as on date		EMD	
1.	21180396		SYMBOLIC	PROPERTY BEARING NEW NO. WZ-513-D, ARE	110.00,40,040	
Sept		2. SUNIL TANWAR AR, & 3. MRS BIMLA	Rs.81,78,676.8/- as on 11.03.2020	MEASURING 130 SQ, YDS., OUT OF KHASRANI 698, SITUATED AT BASAI DARAPUR, NEW DELF	D-0.24 0700	
2.	7890915	SYMBOLIC			PROPERTY NO. 1-	
	1. BABU LAL GUPTA, 2. BABITA GUPTA, W/O	Rs. 1,50,28,046/- as on January 13, 2020	NEW DELHI-110	AT CSC CHITRANJAN PARK, MARKET NO.2, 019 (AREA MEASURING 9.35 SQ MTRS), ED IN SALE DEED DATED 22/06/2009.	Rs.1,01,25,000/- PROPERTY NO. 1- Rs.10,12,500/-	
	3. M/S N K BUILDERS, Through its Partner.  RIGHTS- ADJO BEARING NO. L DELHI-110019, N FAVOUR OF BAB	RIGHTS- ADJOININ	THIRD FLOOR (LEFT NG PROPERTY NO.L	1 P P C C P C P T T T P C C Z +		
		DELHI-110019, MOR FAVOUR OF BABITA	EARING NO. L-61, HAVING ADMEASURING AREA 140 SQ. YDS., SITUATED AT KALKA JI, ELHI-110019, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED DATED 03/12/2008 IN AVOUR OF BABITA GUPTA VIDE REGISTRATION NO. 17628, IN ADDITIONAL BOOK NO. 1, DL NO. 8956, ON PAGE NO. 1 TO 9, ON 04/12/2008.			
<ol> <li>7779420 SYMBOLIC PLOT NO. D-321, MUNICIPAL NO.1449/22-A, BUIL</li> </ol>				D-321, MUNICIPAL NO.1449/22-A, BUILT ON P	LOT Rs.	

	3. M/S N K BUILDERS, Through its Partner.	RIGHTS- BEARING DELHI-110 FAVOUR C	ADJOINING PROP NO. L-61, HAVING A 1019, MORE PARTIC OF BABITA GUPTA VI	OOR (LEFT SIDE PORTION WITH EXCLUSIVE TERRACE ERTY NO.L-62, KALKAJI) OF FREEHOLD PROPERTY DMEASURING AREA 140 SQ. YDS., SITUATED AT KALKAJI, ULARLY DESCRIBED IN SALE DEED DATED 03/12/2008 IN DE REGISTRATION NO.17628, IN ADDITIONAL BOOK NO.1, TO 9, ON 04/12/2008.	Rs.	PERTY NO. 2- 1,08,01,350/- PERTY NO. 2- 10,80,140/-		
3.	7779420		SYMBOLIC	PLOT NO. D-321, MUNICIPAL NO.1449/22-A, BUILT ON PLOT Rs.				
	1. ATUL KUMAR SAV S/O Late Madan Lat S 2. MRS.TEENA SAW	Sawhney,	Rs.65,26,462.81/- AS ON 28.02.2020	I NO 440 CITILATED IN THE COLONIV PAIOWALAC HADDENDI IDI				
	3. M/S ATUL CHEMIC Through its Proprieto	CALS,	SHAHDARA, DELHI-110093 AS PER DEED DATED 1st JULY 2016. BOUNDED AS: NORTH : PROPERTY OF OTHERS, SOUTH : 9.0 MTRS WIDE ROAD, EAST : ROAD 20 FEET, WEST : PROPERTY OF OTHERS					
4.	6324032, 6616401 & 20540725		SYMBOLIC Rs.2,53.40,306.86/-	PROPERTY NO. 1- FLAT NO. 279 FIRST FLOOR MIG PROPERTY NO. 1- FLATS, AREA MEASURING 278 SQ FT (APPROX.) CAT Rs.1.12,29,620/-				
	1. ATUL BANSAL, S/O SHYAM LAL BANSAL, 2. SHYAM LAL		as on 13th	PRASAD NAGAR PHASE 1, NEW DELHI 110005 AS PER SALE DEED DATED 10.10.2005 IN FAVOUR OF SNEHA	Rs	PERTY NO. 1- . 11,22,970/-		
	BANSAL, S/o LALITA PRASAD AKHTAR, 3. M/S DELHI KNIGHTERS RESTAURANT AND CATERS PVT LIMITED.	STAIRCASE WEST; OTHER FLAT NORTH: OPEN PARK, SOUTH: OPEN						
		PROPERTY NO. 2- COMMERCIAL SPACE/ SHOP NO.47 ON GROUND FLOOR, AREA MEASURING 28.80 SQ METERS (NEAR RAJINDRA PLACE METRO) DDA Rs.54,96,300/-						
	Through its Director, 4. M/S MARK AIR SERVICES PVT LTD, THROUGH ITS		PLACE, NEW DI	LEX, PLOT NO.9,13,14, 15 RAJINDRA BHAWAN, RAJINDRA ELHI-110008 IN FAVOUR OF ATUL BANSAL MORE ESCRIBED IN SALE DEED 20,10,2014 DULY REGISTERED		PERTY NO. 2- s.5,49,630/-		
				NO 8831 BOOK NO I VOI NO 15792 ON PAGES 72.79				

DIRECTOR SH ATUL BANSAL | AS DOCUMENTS NO.8831, BOOK NO.1, VOL. NO.15792, ON PAGES 72-79. REGISTERED ON 25.10.2014. & PIYUSH JOSHI, 5. PIYUSH JOSHI, S/o Rajeev Joshi, PROPERTY NO. 3-COMMERCIAL SPACE/SHOP NO.48 ON GROUND FLOOR, PROPERTY NO. 3 Director of M/S Mark Air AREAMEASURING 29.21 SQ METERS (NEAR RAJINDRA PLACE METRO) DDA Rs.55,76,090/-Services Pvt Ltd, 6. ATUL SHOPPING COMPLEX, PLOT NO.9,13,14, 15 RAJINDRA BHAWAN, RAJINDRA PROPERTY NO. 3 BANSAL, S/O SHYAM LAL PLACE, NEW DELHI-110008 IN FAVOUR OF ATUL BANSAL MORE Rs.5,57,610/-BANSAL, Director of M/S Mark | PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED 13.11.2014 DULY REGISTERED Air Services Pvt Ltd, 7, MRS. AS DOCUMENT NO.9256, BOOK NO.I, VOL. NO.15809, ON PAGES 182-189,

REGISTERED ON 13.11.2014. PROPERTY BEARING NO.C-898D (B), BLOCK NO.C, HAVING SYMBOLIC AREA MEASURING 673.00 SQ FEET SITUATED IN "SUSHANT 1.78,77,260/-Rs.1.50.08,747.14/-GARDEN" AT SUSHANT LOK, IN AND AROUND VILLAGE Baiai, 3. Mrs Kanta Baiai alias SARHAUL, CHAKARPUR, SALOKHRA, KANHAI & WAZIRABADK 17,87,730/

DISTRICT GURUGRAM, HARYANA-122001, MORE DESCRIBED IN TITLED DEED, BOUNDED AS NORTH: C-898 'C', SOUTH: ROAD, EAST: C-897 'D', WEST: C-899'D' PROPERTY EASTERN PORTION MEASURING 145 SQ YARDS PART OF HOUSE NO.5-A/27, WITH ROOF RIGHTS, NIT 1,04,89,760/ Rs.1.04.71.973.24/-FARIDABAD, TEHSIL & DISTT. FARIDABAD, Haryana, AS PER BRIJ MOHAN KOHLI, 3. LATE as on 27th SALE DEED NO.6655 DATED 09/11/1992 REGISTERED IN THE 10,48,980/-DECEMBER, 2019 OFFICE OF SUB REGISTRAR FARIDABAD, Haryana. BOUNDED AS: EAST: ROAD, WEST

REMANING PORTION, NORTH: GOVT PLACE/LAND, SOUTH: GAL PROPERTY NO. 1: C-2-A, KHASRA NO.3/18/2 VILLAGE | PROPERTY NO. 1 SYMBOLIC JOHRIPUR, JEEWANPUR, MAIN ROAD, SHAHDARA, HUKUM CHAND ALIAS Rs. 1,26,16,330.65/-DELHI -110094, BUILD UP AREA 121.33 SQ YARDS. HUKAM CHAND, S/o Sh Om as on 22nd BOUNDED AS: EAST: MAIN ROAD, WEST: OTHER'S Prakash Sharma, 2. MRS. February 2020 PROPERTY NORTH: C-2B, SOUTH: C-2 HEMLATA SHARMA, 3. M/S SHANTI ENGINEERING PROPERTY NO. 2-PLOT NO.1/9898, GROUND FLOOR, GALI NO.3E, WEST PROPERTY NO. 2 COMPANY, Through its GORAKH PARK, SHAHDARA, DELHI, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN

Rs. 83,35,370/-PROPERTY NO. 1 Rs. 8,33,540/-

Proprietor, & 4. HARSH SALE DEED DATED 01.07.2013 AREA MEASURING 156 SQ YARDS. BOUNDED PROPERTY NO. 2-

and costs (including the cost of the sale) are tendered to the 'Authorized Officer' or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid. At the sale, the public generally is invited to submit their tender personally. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. With reference to the properties at Serial No. 1,3,4, 5, & 7, the matter is sub-judice before Debts Recovery Tribunal. If the Borrower(s) pays the amount due to the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD in full before the date of sale, the sale is liable to be stopped.

The description of the properties that will be put up for sale is in the Schedule. The sale will also be stopped if, amount due as aforesaid, interest

SHARMA. S/o HUKUM AS: EAST: ROAD, WEST: GALI, NORTH: Plot No. 9900, SOUTH: Plot No. 1/9892.

The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions: The E-auction will take place through portal https://disposalhub.com on 29th DAY OF SEPTEMBER 2020 between 2.00 PM to 3.00 PM with unlimited extension of 10 minutes each.

1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once again be put up to auction. 2. The properties shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.1,00,000/- ( Rupees One Lacs Only). 4. All the Bids submitted for the purchase of the properties shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD." payable at DELHI. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders. 5. The highest bidders shall be declared to be the purchaser of any lot provided always that he is legally qualified to bid and provided further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the 'Authorized Officer' to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the 'Authorized Officer' to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the properties may be done on 25 SEPTEMBER, 2020 between 11 AM to 5.00 PM. 8. The Successful bidder shall pay all the statutory dues/taxes/charges/fees/housing society property tax/electricity/water, etc., if any. If the intending bidder requires, he should appraise himself about various dues from different organization before bidding. TCFSL holds no responsibility to provide information about the same. 9. The intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, titles of properties put on auction and claims/rights/dues/affecting the Secured Asset, prior to submitting to their bid. The E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment of any representation on behalf of TCFSL. The Secured Asset is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to TCFSL. The Authorised Officer of Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. 10. The person declared to be the purchaser shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money to the 'Authorized Officer'. In default of such deposit, the EMD shall be forfeited and the property shall forthwith be put up again and resold. 11. As per Section 194-1A of the Income Tax Act, 1961, TDS shall be applicable on the sale proceeds wherein the sale transaction is Rs.50,00,000/- and above. The successful bidder/purchaser shall deduct the requisite percentage of TDS from the Sale Price and deposit the same with the Income Tax department in Form. 16B. The TDS payment acknowledgement slip is required to be submitted to the Authorised Officer. 12. In case the initial deposit is made as above said, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the 'Authorized Officer' on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day, which can be extended post consultation with Authorised officer in accordance to the SARFAESIACT, as the case may be, but with express consent only. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold, after the issue of a fresh proclamation of sale and all amounts deposited till then shall be stand forfeited by the TCFSL and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. The Secured Asset shall be resold at the discretion of the Authorised Officer. 13. Note: The intending bidders may contact the Authorized Officer Mr.

Ayan Bhattacharya, Email id Ayan, Bhattacharya@tatacapital.com and Mobile No.7290010751. 14. For detailed terms and conditions of the

Sale, please refer to the link provided in secured creditor's website i.e. www.tatacapital.com/tcfsl.html.

Sd/- Authorized Officer Tata Capital Financial Services Ltd

PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED Regd. Office: K H - 810, 2ND FLOOR MAHIPAL PUR EXTENSION (NEAR MARUT)

WORK SHOP) NEW DELHI- 110037 CIN: L65993DL1992PLC048483 Email ID: porche\_capital@yahoo.in; website: www.porschecapital.com

Notice is hereby given that Annual Genera Meeting (AGM) of the Company will be held a Gauri Shankar Mandir, K Block, Mangolpur Delhi-110083 on Monday, 29th September, 2020 at 09:00 A.M. to transact the Business, as set out the Notice of AGM he said Notice along with the Proxy Form

Attendance Slip, and Annual Report inter-alia ontaining Director's Report, Auditor's Report and udited Financial Statement has been dispatched all Members at their registered address or email ds on 03rd September, 2020 and the same is also available on the website of the Company at www.porschecapital.com and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depositary Limited (NSDL) at https:// voting.nsdl.com

compliance with Section 108 of the Companies ct, 2013 read with Rule 20 of the Companie (Management and Administration) Rules, 2014 lembers are provided with the facility to cast their otes on all resolutions set forth in the Notice of ne AGM using electronic voting system from a lace other than the venue of the AGM ('remot voting'), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting. The remate e-voting period commences on 26'

September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 28" September, 2020 (5.00 P.M). During this period, dembers may cast their vote electronically. The eoting module shall be disabled by NSDL hereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Monday 28th September, 2020 (5.00 P.M). The voting ights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 22° September, 2020 ("cut-off date"). Any person who is a Member of the Company as on the cutoff date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote eoting or voting at the AGM by poll,

person who has acquired shares and become member of the Company after dispatch of notice f AGM and holding shares as of cut-off date is igible to cast vote on all resolutions set forth in he Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if the erson is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The facility for voting, on a Ballot paper shall be

nade available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote a oting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by emote e-voting may also attend the AGM bu shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting, pleas refer to the Frequently Asked Questions (FAQs and e-voting manual available a www.evoting.nsdl.com under help section of write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contac n toll free number provided by NSDI 1800222990 or contact National Securities epository Limited Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai - 400013 In case of grievances/difficulties, Members may iso contact M/s. Skyline Financials Services Pvt. Ltd., the Registrar and Share Transfer Age of the Company Pursuant to Section 91 of the Companies Act

Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2020 to 27th September 2020 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the inancial Year ended 31st March, 2020. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy/through authorise representative, provided that all proxies in the

2013, the Register of Members and Share

prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the By Order of the Board

PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED RAJAN TIRKEY DATE: 05/09/2020 DIRECTOR Place: NEW DELHI

# **ASIA PACK LIMITED**

Registered Office: 3"Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301 CIN: L74950RJ1985PLC003275 Tel. No. 1800 120 3699, Email: ankita.mata@mirajgroup.in, Website: www.asiapackltd.com

NOTICE OF 35"ANNUAL GENERAL MEETING. BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 35"Annual General Meeting ("Meeting" or 'AGM") of the Members of ASIA PACK LIMITED ("Company" or "APL") will be held on Wednesday, 30th day of September, 2020 at 11.00 A.M. at the registered office of the company at 3" Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301 through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC") to transact the business as set out in notice of AGM dated 24" August. 2020; in Compliance with the applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules framed there under, provision of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015("Listing Regulation") and General Circular No. 20/2020, 14/ 2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with Circular no. SEBI/HO/CFD/P/2020/79 issued by Securities and Exchange Board of India

The Procedure for attending the AGM through VC is explained in the notice for AGM and weblink to attend the AGM is https://www.evoting.nsdl.com. The Shareholder attending AGM through VC will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Facility for appointment of proxy will not be

Notice of 35" AGM and Annual Reports have been sent to all members at heir registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of 35" AGM and Annual Report for the financial year 2020 has been completed on 05° September, 2020. The Notice and Annual Report of the financial year 2019-20 are available on the website of company at www.asiapackltd.com and website of the BSE Limited at www.bseindia.com or website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24" September 2020 to Wednesday, 30"September, 2020, (both days inclusive) for the purpose of 35"AGM of the Company

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 ead with Rule 20 and Rule 21 of the Companies (Management and Administration Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment(s), modification(s) or variation(s) thereof and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such emote e-voting. Only persons holding shares either in physical or in demate orm as on Wednesday, September 23, 2020 ("Cut-off Date"), are entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM on the resolution set forth in the

All the members are informed that: The business as set out in the Notice of AGM may be transacted through

Place: Nathdwara

remote e-voting or e-voting system at the AGM. The remote e-voting shall commence on Saturday, 26"September, 2020 a

09:00 A.M. and end on Tuesday, 29"September, 2020 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 05.00 P.M. on Tuesday, September 29, 2020 and Members shall not be allowed to vote

through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change the vote subsequently. The Facility of "e-voting" shall be made available at the AGM to those shareholders who have not cast their vote by "remote e-voting" and are

attending AGM through VC; The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23"September, 2020 Any person, who acquires shares of the Company and become member of the

Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23"September, 2020 may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; For electronic voting instruction members may go through the instructions sent

alongwith the Notice of AGM, in case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 'downloads' section of NSDL's e-voting website http://www.evoting.nsdl.com or may call on Toll free no.: 1800-222-990 or email at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances regarding the facility of e-voting, Members may contact: Mr. Amit Vishal, Designation: Sr. Manager, Address: Trade World, A Wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013; E-mail id: evoting@nsdl.co.in; and Phone Number(s): 022-24994360: Toll free no: 1800-222-990.

For Asia Pack Limited, Date: 05" September, 2020 Company Secretary and Compliance Officer

By Order of the Board of Directors,

KERALA WATER AUTHORITY-EXTENSION NOTICE e-Tender Notice

Tender No: 33/2020-21/SE/PHC/MVPA

JJM-Pindimana GP-Providing FHTC to Rural households in Pindimana Panchayath. EMD: Rs. 200000, Tender fee: Rs. 11200, Last Date for submitting Tender: 30-09-2020 04:00:pm, Phone: 04852835637 Website: www.kwa.kerala.gov.in www.etenders.kerala.gov.in Superintending Engineer

KWA-JB-GL-6-299-2020-21 PH Circle, Muvattupuzha RASANDIK ENGINEERING INDUSTRIES INDIA LIMITED

> SOHNA, HARYANA - 122 103 CIN: L74210HR1984PLC032293 Website: www.rasandik.com NOTICE

REGISTERED OFFICE: 14 ROJ-KA-MEO INDUSTRIAL AREA

Pursuant to the Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, September 14, 2020. amongst other businesses, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

Company i.e., www.rasandik.com and the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. For Rasandik Engineering Industries India Limited of the Company will be held on Friday

The information contained in this notice is also available on the website of the

Pradeep Chandra Nayak Date: September 5, 2020

Place: Sohna, Haryana Company Secretary

APOORVA LEASING FINANCE & INVESTMENT COMPANY LTD. CIN: L74899DL1983PLC016713 E: apoorvaleasing@gmail.com; W: www.apoorvaleasingfinance.com

Phone No.:011-22446748 Corporate Office: C-1/9, Sector-31, Gautam Budh Nagar, Noida, Uttar Pradesh-201301, PH: 0120 - 4372849

Regd. Office: Third Floor, 13/331, Geeta Colony Delhi-110031,

NOTICE FOR AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 30th day of September, 2020 at 3:00 PM at "Marvel Hall", B-35, Gurunanak Pura, Laxmi Nagar, Delhi-110092.

In terms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 25th day of September, 2020. to 30th day of September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM. The 37th AGM Notice along with the statement annexed to the Notice pursuant to section 102

of the Companies Act, 2013 and Annual Report for the year ended 31st March 2020, have been

sent to the members of the Company electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company. The Notice as well as Annual Report can also be downloaded from the Company's website i.e.www.apoorvaleasingfinance.com. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing the facility to its members to exercise their vote by electronic means on any or all of the business specified in the Notice convening the 37h AGM of the Company (remote e-voting), through e-voting services of NSDL.

The members are requested to note that the e-voting shall commences on Sunday, 27<sup>th</sup> September, 2020 (09:00 AM) and ends on the close of Tuesday, 29th September, 2020 (5.00 PM). Please note that e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Please visit http://www.evoting.nsdl.com to cast your vote through e-voting system.

A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on **cut-off** date i.e. Monday, 23rd September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting at the meeting.

The Company has appointed CS S.P. Ranjan, Practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent

Any person who becomes member of the company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date may obtain the User-ID and password by sending a equest at **apoorvaleasing@gmail.com**. The voting process at the AGM Venue will be conducted through physical polling papers. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Any query or grievances in relation to e-voting by electronic means may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Bigshare Services Private Limited, 302, Kushal Bazar, 32-33, Nehru Place, New Delhi-110019, Phone: +91 11 42425004. Members may also refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under the help section or write an email to evoting@nsdl.co.in.

By Order of the Board For APOORVA LEASING FINANCE & INVESTMENT CO. LTD.

Earning Per Share (After Extraordinary Items)

Place: Noida Date: 5th September, 2020 GOLD LINE INTERNATIONAL FINVEST LIMITED CIN: L74899DL1992PLC050250 Regd. Office: 204, 2nd Floor, Plot No-09. Sikka Complex, Community Centre, Preet

Vihar Delhi- 110092 Website: www.goldlineinternationalitd.com Email: goldline2000@yahoo.com NOTICE Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

**FE SUNDAY** 

and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30" June, 2020 among other things A copy of the said Notice shall also be available the Company's website www.goldlineinternationalltd.com and on Stock Exchange Website at www.bseindia.com

held on Monday 14th September, 2020 to consider

For GOLD LINE INTERNATIONAL FINVEST LIMITED Place: New Delhi PROMOD PANDA

Date: 05.09.2020

A F ENTERPRISES LIMITED Regd. Office: DSM-334, DLF Towers, Shivaji Marg, NEW DELHI-110015 CIN: L18100DL1983PLC016354

Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the

SEBI (Listing and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 Notice is hereby given that the Board Meeting 11th September, 2020 at the factory office at Plot No. 8, Sector-5 Main Mathura Road, Ballabgarh, Faridabad 121006 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and Three Month ended 30th June . 2020

For A. F. ENTERPRISES LIMITED **ABHISHEK SINGH** 

Place: Delhi Whole Time Director Date: 05.09.2020 DIN: 03603706

Regd. Off.: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur 313 001 (Ra CIN: L29222RJ1980PLC002145 Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com Email: info@rajdarshanindustrieslimited.com Tel: 0294-2427999 NOTICE

RAJDARSHAN INDUSTRIES LTD.

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure

Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 12th, 2020 to inter alia to consider and approve the un audited financial results of the Company for the guarter ended June 30, 2020. By Order of the Board For Rajdarshan Industries Limited

Place: Udaipur Kalp Shri Vaya Date : Sept. 05, 2020 **Company Secretary** 

Φ SAKTHI SUGARS LIMITED CIN: L15421TZ1961PLC000396

Regd Office: Sakthinagar - 638 315, Bhavani Taluk, Erode District, Tamilnadu Phone: 0422-4322222, 2221551 Fax: 0422-2220574, 4322488 Email: shares@sakthisugars.com Web: www.sakthisugars.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 15th September 2020 to consider and approve, among others, Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended 30th June 2020. Further details are available on the website of the Company (www.sakthisugars.com) and also on the website of BSE Ltd.

(www.nseindia.com), where the Company's shares are listed. By order of the Board Coimbatore For Sakthi Sugars Limited

(www.bseindia.com) & NSE Ltd

05.09.2020

S.Baskar Sr.V.P. & Company Secretary

(Rs. In Lakhs)



Basic

Basic

New Delhi

Diluted

of Rs 10/- each

Place : Lucknow

Date: September 05, 2020

## Confin Limited CIN: L70101UP1984PLC006445 Regd Office: 308-A, 3rd Floor, Shalimar Square, B.N. Road, Lalbagh, Lucknow-22600 Ph. No.: 0522-4930686, Email: vsdconfin@gmail.com

Pankaj Mishra

ACS: 40550

Company Secretary

Quarter Quarter Quarter **Particulars** Ended Ended Ended 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 Total Income from Operations (Net) 0.00 12.89 0.01 -5.22 -7.04 8.86 Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after Tax Net Profit / (Loss) for the period after 27.34 -5.22-7.04tax (after Extraordinary Items) Equity Share Capital 1,755.07 1,755.07 1,755.07 Reserves (Excluding Revaluation Reserves as -36.73 -29.68 -60.26shown in the Balance Sheet of Previous Year) Earning Per Share (before Extraordinary Items of Rs 10/- each -0.04-0.16-0.03

-0.04

-0.04

-0.04-0.03Diluted -0.16Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under the regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly/Annual Financial results are available on the Stock Exchange Website i.e. www.bseindia.com For VSD Confin Limited

> Sd/-Santosh Kumar Gupta Director DIN: 00710533

-0.16

-0.16

-0.03

-0.03

**AXIS BANK** POSSESSION NOTICE Retail Assets Center: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow-226010

Corporate Office : 3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai-400 025 Registered Office : 'Trishul', 3rd floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 Whereas the undersigned being the Authorised Officers of AXIS BANK LTD, under Securitisation And Reconstruction Of

Financial Assets Enforcement Of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security interest (Enforcement) Rules, 2002 has issued Demand Notices under Section 13(2) of the said Act. The borrower's mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules. The borrower's mentioned here in below in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD, for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each account herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

SI No	Name & Address of the Borrower & Co-Borrower/s / Guarantor/s	Description of the Charged/ Mortgaged Property	Amount Outstanding	
1	Jai Ambey Trading Company (Borrower), Through Proprietor Clo New Mandi Jahagirabad, Near Mandi Office, District Bulandshahr, Uttar Pradesh-282394 Mr. Naresh Chand (Guarantor), Slo Kishan Singh Mahur Rlo Karonji, Pargana Thesil, Anupshahar, District, Bulandshahr, Uttar Pradesh 282394 Also at: Rlo House Number 516, Mohalla Pathak (Nai Abadi) Jahangirabad, Thesil Anoopshahar, District Bulandshahr, Uttar Pradesh 282394 Mr. Bablu Singh (Guarantor), Slo Jagveer Singh Rlo Vidhi Pur, Jahangirabad Rural, District, Bulandshahr, Uttar	Jahangirabad, Thesil Anoopshahar, District Bulandshahr. Uttar Pradesh- 282394 Admeasuring Area: 170.00 Sq.Mt. Boundaries: East: Plot of Jaswant Singh West-Plot of Sewak Ram North-House of Shivlal	Rs. 10,19,808.39 as on 12.03.2020 (Interest calculated up to 29.02.2020) Demand Notice Date 10.06.2020 Possession Date 03.09.2020	
	Pradesh 282394			
	[[1814] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [		Authorized AXIS BAN	

QUOD ISPAT LIMITED (Formerly known as Hind Ispat Ltd) Read. Office: Office No. 208, 2nd Floor, Plot no. A-1, Madhuban Tower. Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi- 110092 CIN: L27109DL1985PLC021183

ACHAL INVESTMENTS LIMITED Regd. Office: OFFICE NO 208, 2ND FLOOR, PLOT NO A-1 MADHUBAN TOWER, VEER SAVARKAR

BLOCK, SHAKARPUR, DELHI - 110092 Email: achalinvest@yahoo.com; Website: www.achalinvest.com; CIN: L65993DL1980PLC010636 Notice is hereby given that Annual General

18

Meeting (AGM) of the Company will be held at Navkar Tirth Atisey Ksetra, Village, Neelwal, Near Mahaviday Ksetra, Ghevra More, Rohtak Road, Delhi on Tuesday, 29" September, 2020 at 09:00 A.M. to transact the usiness, as set out in the Notice of AGM. compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 Members are provided with the facility to cast

SUNDAY, SEPTEMBER 6, 2020

a place other than the venue of the AGM ('remote -voting'), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting. The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been fispatched to all Members at their registered address or email ids on 03rd September, 2020 nd the same is also available on the website of the Company at www.achalinvest.com and the

Notice of the AGM is also available on the website

of National Securities Depositary Limited (NSDL)

at https://evoting.nsdl.com

their votes on all resolutions set forth in the Notice

of the AGM using electronic voting system from

The remote e-voting period commences on 26° September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 28th September, 2020 (5.00 P.M). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Monday, 28th September, 2020 (5.00 P.M).

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 22th September, 2020 ("cut-off date") Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by A person who has acquired shares and become

a member of the Company after dispatch of

notice of AGM and holding shares as of cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such persor may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. he facility for voting, on a Ballot paper shall be nade available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote eoting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting please refer to the Frequently Asked Questions FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact on tall free number provided by NSDL 1800222990 in case of grievances/difficulties,

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain losed from 24" September, 2020 to 27" September, 2020 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31" March, Persons entitled to attend and vote at the

Members may also contact M/s. Beetal

Financial & Computer Services Pvt. Ltd., the

Registrar and Share Transfer Agents of the

meeting, may vote in person or by proxy/through authorised representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting. By Order of the Board For ACHAL INVESTMENTS LIMITED

PRADEEP KUMAR Date: 05.09.2020 Place: New Delhi Director

# साप्ताहिक पंचांग राशिफल

इन्दरमल चौधरी (सम्पादक-ज्योतिष-रत्न त्रैमासिक पत्रिका गायत्री ज्योतिष

कार्यालय



सादड़ी जिला राजसमन्द 9928045062 9414354031 email ayjyotishratn@ gmail.com वेब

## 6 सितम्बर से 12 सितम्बर, 2020

ग्रह-योग- सूर्य सिंह, चन्द्रमा मेष से मिथुन, मंगल मेष, बुध कन्या, गुर धनु, शुक्र कर्क, शनि मकर, राहु मिथुन में।

पर्वोत्सव- चतुर्थी से दशमी तक के श्राद्ध, भरणी का श्राद्ध, चन्द्र षष्टी व्रत, सौभाग्यवती श्राद्ध।

मेष- (चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

इस सप्ताह कोई परेशानी मिट सकेगी, स्वजन आपके हितैषी रहेंगे तथ आपके साथ कहीं धोखा नहीं हो सकेगा। किसी परिजन के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं रहेगी तथा आपका आत्म-विश्वास नहीं टट सकेगा।

वृष- (ई, ऊ, ऐ ओ, वा, वी, वू, वे, वो )

सप्ताहारम्भ के तीन दिनों में राह चलते कोई अहित कर सकेगा, शरीर सुख में कमी महसूस होगी तथा धन-लाभ की सम्भावना नहीं रहेगी सप्ताह के अन्य दिनों में यात्रा लाभ देगी तथा घर-गृहस्थी में सुखानुभूति

मिथुन- ( का, की, कू, घ, इ, छ, के, को, हा )

बुध-गुरु को घर-गृहस्थी से सम्बन्धित चिन्ताएं रहेगी, किसी के प्रलोभन में आयेंगे तथा आकस्मिक लाभ की सम्भावना नहीं रहेगी। सप्ताह वे अन्य दिनों में दिनों में राज-पक्ष की अनुकूलता से कानूनी-विवाद सुलट सकेंगे तथा शत्रु अपने–आप को कमजोर समझेगा।

कर्क- ( ही, हू, हे, हो, डा, डू, डू, डे, डो )

इस सप्ताह हर समय चौकन्ने रह कर कार्य करेंगे, क्रोध का दमन क सकेंगे तथा परिजनों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। सप्ताहान्त के दो दिने में आय की अपेक्षा व्यय की तादाद अधिक रहेगी तथा नई योजना स्थगित करनी पड़ेगी।

सिंह- ( मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे )

इस सप्ताह आप हर तरह से संयम बनाये रखेंगे, कहीं आपकी खुब प्रशंस होगी तथा क्षमता के अनुरूप कार्य करेंगे । दौड़-धूप या वाद-विवाद वे अवसर नहीं रहेंगे तथा किसी होने वाले लाभ से वंचित नहीं रह सकेंगे

कन्या- ( टो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो ) सप्ताहारम्भ के तीन दिनों में घरेलु झंझटों में स्वजन सहयोग नहीं करेंगे यात्रा सुखप्रद नहीं रहेगी तथा दाम्पत्य-सुख का अभाव रहेगा। सप्ताह वे अन्य दिनों में कार्यान्तर से लाभ होगा तथा नई योजना प्रगतिप्रद रहेगी।

तुला- ( रा, री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते ) बुध-गुरु को परेशानियां नहीं मिटाई जा सकेगी, कहीं भ्रमण के अवसर सुलभ नहीं होंगे तथा यार-दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ रहने का मौक नहीं मिल सकेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में अनुकूल बदलाव कर पायेंगे तथा नई योजना लाभप्रद रहेगी।

वृश्चिक- (तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू)

इस सप्ताह अपनी वाणी के संयम से विरोधी अनुकूल रह सकेंगे, जन-सम्पर्क में वृद्धि होगी तथा समय के अनुरूप निर्णय लेकर चलेंगे सप्ताहान्त के दो दिनों में व्यर्थ के झंझटों से दूर नहीं रहेंगे तथा विशेष मसलों पर चिन्तन–मनन नहीं करेंगे।

धनु- ( ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढ़ा, भे )

इस सप्ताह बल-बुद्धि-विवेक के सहारे विपक्ष को दबा सकेंगे, ईर्द-गीर्द के लोगों से तालमेल रहेगा तथा वांछित सामग्री जुटा सकेंगे। अनावश्यव खर्चों में कटौती कर सकेंगे तथा नई सूझ-बूझ से लाभान्वित महसूरू करेंगे।

मकर- ( भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी )

सप्ताहारम्भ के तीन दिनों में लम्बे अर्से से चली आ रही परेशानियों क अन्त दिखाई नहीं देगा, लोभ में आकर नुकशान करेंगे तथा निकट समय में राहत के अवसर दिखाई नहीं देंगे। सप्ताह के अन्य दिनों में वफादार रहने से उन्नति का अवसर मिलेगा तथा भावी राह प्रशस्त होगी।

कुम्भ- ( गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा )

बध–गरु को कोई स%चा मार्ग–दर्शक नहीं मिलेगा, मानसिक कमजोरी वे प्रभाव से चिन्ताएं रहेंगी तथा आगे से आगे स्वत: रास्ते रुकते चले जायेंगे सप्ताह के अन्य दिनों में कहीं आ–जा सकेंगे तथा स्वजनों पर विश्वार करना सार्थक रहेगा।

मीन- ( दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची )

इस सप्ताह शारीरिक व मानसिक समन्वय रहेगा. थकावट का आभार नहीं होगा तथा मन की स्थिरता से निर्णायक क्षमता रह सकेगी। सप्ताहान के दो दिनों में आस-पास सहयोगियों का अभाव रहेगा तथा लोगों वे दिलों में जगह नहीं बना सकेंगे।

## विप्र सेना विधानसभा उदयपुर शहर कार्यकारिण का विस्तार









उदयपर, 5 सितम्बर। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कमार शर्मा जॉन ए 1 के निर्देश से उदयपुर शहर विधान सभा प्रभारी राजेश भट्ट व अध्यक्ष आशीष शर्मा ने उदयपुर शहर विधान सभा कार्यकारिणी की घोषणा की जिसमें उपाध्यक्ष कैलाश नागदा,विजय सनाढ्य, डॉ.घनश्याम शर्मा, हितेश शर्मा, महामंत्री रोहित पण्डिया, अमित शर्मा, कोषयाध्यक्ष राजेश पाईवाल, सचिव चन्देश श्रीमाली, मंत्री मुकेश पालीवाल, सयोजक मनीष शर्मा, सदस्यता राज शर्मा,अजय पुजारी की घोषणा की गई।



ज्ञान का प्रकाश तो स्वयं ही प्रकट होगा, आप पहले मन के अंधकार को मिटाइये ।अफवाहों के दौर से गुजर रहा है संसार, आप मगर इससे दूर हो जाइये।। रक्त बीज अपने विशाल रूप में प्रकट हो गया है, तो फिर ना घबराइए ।मानवता को देवी खुद आकर बचाएगी .पहले आप कोरोना से खुद को बचाइये ।।अरूण शर्मा ,अजीब भीलवाड़ा

#### डेयरी महाविद्यालय में मनाया शिक्षक दिवस ऑनलाइन

उदयपुर, 5 सितम्बर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संघटक डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में शिक्षक दिवस ऑनलाइन तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. वी. डी. मुद्रल, अधिष्ठाता, सी.डी.एफ.टी. ने बताया गया की शिक्षक जीवन का एक अभिन्न अंग है तथा इनके द्वारा दिये गए ज्ञान से छात्र व समाज आगे उत्तरोत्तर

RAJDARSHAN INDUSTRIES LTD. Aegd. Off.: 59, Moti Magn Scheme, udaipur 313 usi r CIN: L29222RJ1980PLC002145 Tel: 0294-2427999

NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEE Listing Obligation and Disclosur Requirements) Regulation, 2015, Notice i ereby given that the meeting of the Boar of Directors of the Company is scheduled t be held on Saturday, September 12th, 2020 to inter alia to consider and approve the unaudited financial results of the Company fo the quarter ended June 30, 2020. By Order of the Boar

For Rajdarshan Indus Place : Udaipur Kalp Shri Vaya Date : Sept. 05, 2020 Company Secretary

भीलवाडा, राजस्थान शिक्षक माँ, शिक्षक जीवन के दो गुरु माँ से होता जग में जीवन शुरू

> को करना दूर होता दुरुह । काले ब्लैक बोर्ड का लेता सहारा जीवन उज्ज्वल बनाता हमारा अपने शिष्यों को उनके लक्ष्य तक,

शिक्षक बिना अज्ञान रूपी तम

पहुंचाने में होता बड़ा एक सहारा।

बादल जब निराशा के छा जाते आशा की किरण हमें दिखाता है नई ऊर्जा, नई जान जीवन में भरता वो रहते साथ हमारे बुरा वक्त पलटता है

अहंकार से रहे दूर, सत्य सदा बतलाता है शिष्यो को सफलता केशिखरों पर पहँचाता जीवन में सादा जीवन उच्च विचार अपनाता अपने व्यक्तित्व से लोग का आदर्श बनता

नाम शिष्य का सूरज बन चमके जग में बस यही अरमान निज हृदय में संजोता है मुश्किलों के सागर से जीवन नैया पार कराता मरते दम तक ज्ञान प्रकाश फैलाता है

गुरु उपदेशों में बहती अनुभव की धारा जन जन के भविष्य का होता वो कर्णधार सागर सम जान के माणिक मोती हृदय भरे शिख्सयत नहीं आम वो शिक्षक होता भाग्य

#### हाइड्रोपोनिक्स एवं वर्टिकल फार्मिंग पर वेबीनार आयोजित

उदयपुर, 5 सितम्बर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हाइड्रोपोनिक्स एवं वर्टिकल फार्मिंग पर वेबीनार आयोजित की गई वेबिनार में मख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर, कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने हाइड्रोपोनिक्स एवं वर्टिकल फार्मिंग को वर्तमान समय की महती आवश्यकता बताया। उन्होंने बढते नगरीकरण एवम किष भिम की घटती उपलब्धता का 🚾 फार्मिंग को ही बताया। वेबिनार

फॉर सेल

MAH & MAHFES

SWARAJ-2016 Model

CHASIS No.

WYTA30428120344

Engine No.

391354EPO10520A

ESCORTS-2017 Model

CHASIS No.-T052402598EF

Engine No. - E2408632

contact -

SUNDARAM FINANCE LTD

9784262696, 7727860722

एशिया पैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः तृतीय तल, मिराज परिसर, ऊपर की ओडन

नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान, भारत, पिन-313301

CIN: L74950RJ1985PLC003275

टेलीफोन नंबरः 1800 120 3699, ई-मेलः ankita.mata@mirajgroup-in, वेबसाइटः www.asiapackitd.con

35वीं वार्षिक सामान्य सभा, बुक क्लोज़र तथा रिमोट

ई-वोटिंग की सूचना के बारे में जानकारी

35वीं वार्षिक सामान्य समा ("समा" अथवा "एजीएम") बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे पंजीकृ

कार्यालयः ततीय तल. मिराज परिसर. ऊपर की ओडन. नाथदारा. राजसमंद. राजस्थान. भारत. पिन—313301

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("वीसी") से, एजीएम नोटिस दिनांक 24 अगस्त, 2020

नेहित व्यवसाय के संपादन हेतु, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सभी लागु होने योग्य प्रावधानों एवं उन अंतर्गत बनाए गए नियमो तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्ष

नेयमन, 2015 (सूचीबद्ध अधिनियम) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 20/2020

4/2020,17/ 2020 सहपठित परिपत्र SEBI/HO/CFD/P/2020/79 जो भारतीय प्रतिमूर्ति औ

गया है और एजीएम में उपस्थित होने का वेब लिंक https://www.evoting.nsdl.com है। वीसी व

नाध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले अंशधारकों को अधिनियम की धारा—103 के तहत कोरम में गिना जाएगा

गंजीकृत पते पर भेज दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 35वीं एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेष

05 सितंबर, 2020 तक पूरा किया गया है। नोटिस और वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी व वेबसाइट www.asiapackItd.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindiacom प

प्रावचानों के अनुरूप एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) नियमन 2015 के अधिनियम 42 के तहत कंपनी के रजिस्ट्रर ऑफ़ मेंबर्स एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स गुरुवार, 24 सितम्ब

020 से बुधवार, 30 सितम्बर , 2020 (दोनों) दिन शामिल) तक कंपनी के 35वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेगी

विनियमन 49 के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 संपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) निय 2014 के नियम 20 और नियम 21, समय—समय पर संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्ष

नेयमन २०१५ के विनियमन 🗚 किसी भी संशोधन (ओ) परिवर्तन (ओ) या तबदीली (ओ) सदित एवं भारती

कंपनी सचिव संस्थान संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस–2") के प्रावधानों अनुसार, कंपनी प्रसन्नता के साथ अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा ("रिमोट ई—वोटिंग") किसी अ

स्थान से नोटिस में दिए गए प्रस्तावों पर अपने मत डालने की सविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदत इलेक्टॉनिक वोटिं

पुस्टम से उपलब्ध करवाई है तथा इस तरह के रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से कार्य संपादित किया जा सक

£—वोटिंग या एजीएम में नोटिस के प्रस्ताव पर मतदान की सविधा का लाभ उठाने का हकदार हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

2020 (सांय 05.00) को समाप्त होगी।

में मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मत डालने के लिए किया जा सकता है।

सकता है।

। बुधवार, 23, सितंबर, 2020 ("अंतिन तिथि") पर शेयरों को भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में धारित व्यक्ति ही रिमोव

एजीएम के नोटिस में दिए गए कार्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा संपादित किया जा

रिमोट ई—वोटिंग शनिवार, 26 सितंबर, 2020 (प्रातः 09.00) से शुरू होगी एवं मंगलवार, 29 सितंब

एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग 29 सितंबर, 2020, मंगलवार को सांय 05.00 के बाद अक्ष कर दिया जाएगा तथा इसके बाद सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने व अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर मत डालने के बाद, सदस्य को बा

"ई-वोटिंग" की सुविधा एजीएम में उन अंशधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने अपना "रिमोट ई-वोटिंग" से नहीं डाला है और वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 2 एक व्यक्ति, जिसने नोटिस भेजे जाने के बाद अंशो का अधिग्रहण किया और कंपनी का सदस्य बन गया है और अंतिम तिथि यानि 23 सितंबर, 2020 को अंशो को घार किये हुए है, evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए लॉगिंग आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता हैं। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहर से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग

इलेक्टॉनिक मतदान निर्देश को सदस्यों दारा एजीएम के नोटिस के साथ भेजे गए निर्देशों के माध्यम खा जा सकता हैं, किन्ही भी प्रश्नों की दशा में सदस्य एनएसडीएल की ई—वोटिंग वेबसाइर

nttp://www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोड' खंड पर उपलब्ध अंशधारकों के लिए अक्सर पूछे जा

ाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल को टोल फ्री नं: 1800—222—990 अथवा ई—मे

वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने की पूर्ण प्रक्रिया को एजीएम के नोटिस में समझा

35वीं एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सभी सदस्यों को अनुमत मोड में उनवं

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 तथा कंपनी अधिनियम की धारा 91

सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) नियमन, 2015 के विनियमन 29 संपठि

वेनिमय बोर्ड द्वारा जारी किया गया की अनपालना में. आयोजित की जाएगी ।


जीएम के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि एशिया पैक लिमिटेड ("कंपनी और एपीएल ") के सदस्यों व

के मुख्य वक्ता इंजीनियर प्रवीण कुमार शर्मा , एम.डी.

फ्लोरा कंसल्ट, पुणे ने वर्टिकल फार्मिंग पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की उन्होंने इस नई तकनीकी के विभिन्न घटकों व आयामो पर विस्तत चर्चा की । वेबीनार में विशेषज इंजीनियर मनजीत सिंह, सहायक आचार्य, सी.टी. ऐ.ई, उदयपर ने कम लागत के वर्टिकल चारा उत्पादन इकाई पर विस्तृत चर्चा की व कृषकों को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराने की तकनीकी पर जानकारी दी। वेबीनार में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर अभय कुमार मेहता, अनुसंधान निदेशक, महाराणा प्रताप कृषि एवम प्रौद्योगिकी



शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत-बहुत बधाई द्वारा रामचंद्र प्रतीक तृप्ति मूंदड़ा

#### शिक्षक दिवस ऑन लाइन तरीके से मनाया शिक्षक दिवस

उदयपुर, 5 सितंबर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक मत्स्यकी महाविद्यालय में शिक्षक दिवस ऑन लाइन तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर गूगल मीटिंग के माध्यम से विद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनभव साझा किए । अधिष्ठाता, डॉ बी के शर्मा ने सभी शिक्षकों को बधाई दी एवं बताया कि इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता, डॉ. एल एल शर्मा, डॉ. सुबोध शर्मा एवं प्रख्यात जल कृषि शिक्षाविद् प्रो वी एस दुवें ने अपने विचार रखे।

## रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यात्यः पोस्ट बॉक्स नं. ७३, गाँव कानपुर, उदयपुर-313003 सी.आई. एन: L40102RJ1977PLC001994 दुस्पाव: L294-4490488 वेबसाईट: www.reliancechemotex.com, ई-मेल: cs@reliancechemotex.com

रिलायंस केमोटेक्स इंडस्टीज लिमिटेड की 42 वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग के संबंध में सचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने नियर और भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकर प्रपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधार रिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, साधारण परिपत्र सं. 17/202 देनांक 13 अप्रैल, 2020 और साधारण परिपत्र सं. 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 और भारतीय प्रतिभति विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ('एकीकृत रूप रं गरिपत्र') के अनुपालन में रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 42वीं गर्षिक साधारण सभा ('एजीएम') सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को प्रातः 10:15 बर्ज भा.मा.स.) एजीएम की सूचना ('सूचना') में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के लेए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो वीजअल माध्यमों ('वीसी /ओएवीएम') रं आयोजित की जाएगी। सूचना व वार्षिक रिर्पोट कंपनी की वेबसाइट ww.reliancechemotex.com, नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की बसाइटः https://www.evoting.nsdl.com, और स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की बसाइटः www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

निर्दिष्ट (कट- ऑफ) तिथि अर्थात सोमवार 21 सितम्बर, 2020 तक भौतिव ा डीमैट रूप में शेयर रखनें वाले सदस्य रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम मे ई–वोटिंग सेस्टम के माध्यम से सूचना में वर्णित साधारण व विशेष व्यापार पर इलेक्ट्रोनिक रू ने अपने वोट डाल सकते है। रिमोट ई—वोटिंग की शुरूआत शुक्रवार, 25 सितम्बर 2020 को सबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) होगी और रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को शा 5:00 बजे (भा.मा.स.) के बाद रिमोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा मौजुद नही होगीं। एक स्ताव पर एक बार सदस्य द्वारा वोट डाले जाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किय ना सकता। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि पर सदस्यो के रजिस्टर य नाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम —वोटिंग सिस्टम की सविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

सदस्य ध्यान दे की ई—वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध होर्ग गौर वीसी∕ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम मे उपस्थित ऐसे सदस्य जिन्होने रिमो<sub>ं</sub> –वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावो पर अपने वोट नही डाले और ऐसा करने से बाधित नहीं है. एजीएम में ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के योग्य होंगे। रिमोर ई—वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल चके सदस्य वीसी ∕ओएवीएम के माध्यम र एजीएम मे भाग ले सकते है लेकिन उन्हे दोबारा वोट डालने का अधिकार नही होगा।

कोई भी व्यक्ति जो मिटिंग के इलेक्ट्रोनिक नोटिस के प्रेषण के पश्चात् शेयर n अधिग्रहण करके सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ डेट पर शेयर रखता है वह लॉगिन आई.डी. और पासवर्ड evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर प्राप्त क सकते हैं। यूजर आई.डी. व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया मीटिंग के नोटिस हे साथ उपलब्ध कराई गई है जो कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट ार भी उपलब्ध है यदि सदस्य एनएसडीएल के साथ पहले ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोट ई—वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपने वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड र कर सकते हैं

रिमोट ई-वोटिंग के विवरण के लिए 42वीं एजीएम के नोटिस को देखें रेमोट ई—वोटिंग से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कृपय ww.evoting@nsdl.com पर डाउनलोंड सेक्शन में उपलब्ध frequenty aske uestions (FAQs) तथा evoting manual देखें या टोल फ्री नंबर 1800—222—990 य evoting@nsdl co in पर आग्रह करें। रिमोट ई—वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक प मतदान सविधा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए एनएसडीएल प कृपया श्रीमती पल्लवी महात्रे, मैनेजर एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड . हमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परल, मुंबई—400013, ई—मेल pallavid@nsdl.co.in, दु: 022—24994545 / 1800—222—990 पर संपर्क करें । कृतेः रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटे

# कार्यालय अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड बाँसवाड़ा (राज.)

### निविदा सूचना संख्या-09/2020-21

निम्न लिखित कार्यों के लिए राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा केवल मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से मेहरबंद निविदाएं निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.09.2020 से 10.09.2020 को मध्याह्र 01.00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 10.09.2020 को 03.00 बजे तक प्राप्त कर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 03.30 बजे खोली जाएगी। विस्तृत नियम एवं शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in साईड पर देखी जा सकती है।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित	अमानत राशि		निविदा	कार्य पूर्ण करने	
सं.		लागत	2 प्रति.	0.50 प्रति.	शुल्क	की अवधि	
		(लाखों में)					
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Urgent Repair work due o heavy rainfall on SH-54A in Km 78/0 to 85/0.	1.94	3880	970	500	1 माह	
2.	Urgent repair work due o heavy rainfall on SH-10B in Km 10/0 to 11/0 & 16/0 to 20/0.	1.92	3840	960	500	1 माह	
3.	Urgen repair work due to heavy rainfall on chordi chouraja Gangartalai Road in km 0/0 to 13/400.	1.93	3860	965	500	1 माह	
4.	Urgent Repair work due to heavy rainfall on Barodiya Nougama road in Km 0/0 to 9/300	1.95	3900	975	500	1 माह	
5.	Urgent Repair work due to heavy rainfall on Barodiya karji road in Km 0/0 to 5/0.	1.90	3800	950	500	1 माह	
6.	Urgent Repair work due to heavy rainfall in division banswara.	1.92	3840	960	500	1 माह	
7.	Urgent Repair work due to heavy rainfall in Distt. sub division I banswara.	1.94	3880	970	500	1 माह	
8.	Urgent Repair work due to heavy rainfall in Distt. sub division II banswara.	1.92	3840	960	500	1 माह	
9.	Urgent Repair work due to heavy rainfall in Distt. sub division bagidora.	1.90	3800	950	500	1 माह	
10.	Urgent repair of various CD works due to heavy rainfall in division banswara.	1.93	3860	965	500	1 माह	
	कुल योग :	19.25	38500	9625			

- 1. निविदा प्राप्ति अथवा खुलने की दिनांक को अवकाश होने पर अगला दिन कार्य दिवस माना जाएगा।
- 2. धरोहर राशि डी.डी. संबंधित खण्ड अधिशासी अभियंता के नाम देय होगी।
- 3. निविदा खोलने की दिनांक को वैध सेल टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 4. शर्त युक्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
- 5. तार अथवा डाक से भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 6. राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधित नियमों के आधार पर ही निविदाएं प्राप्त की जाएगी।
- 7. कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित हैं।
- 8. नवीनतम नियमों के तहत R.P.W.A.-100 में अंकित सभी शर्तें ठेकेदार पर लागू होगी व ठेकेदार उसकी पालना हेतु बाध्य होगा।

(गजेन्द्र कुमार लोढ़ा) अधिशासी अभियंता-सा.नि.वि. खण्ड, बाँसवाड़ा









voting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य ई—वोटिंग की सुविधा के बारे में किसी भी शिकायत ी दशा में, श्री अमित विशाल, पदनामः वरिष्ठ प्रबंधक, पताः ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा एवं पांचवा तल, कमला मिल कंपाजंड. लोअर परल, मुंबई—400013, ई—मेल आई.डी evoting@nsdl.co.in और फोन नंब 22—24994360; टोल फ्री नंं 1800—222—990 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांकः 05 सितम्बर, 2020

निदेशक मंडल के आदेश कंपनी सचिव और